

विषय: एमआरपीएल के वित्त और लेखा स्कंध में सीए छात्रों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण पाने का मौका

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि (एमआरपीएल), पेट्रोलीयम और प्राकृतिक गैर मंत्रालय के अधीन एक अनुसूची ' क ' मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम है (सीपीएसई) जो 15 MMTPA पेट्रोलीयम रिफाइनरी चलाता है जिसका डिज़ाइन बहुमुखी है और जिसकी जटिल गौण प्रोसेसिंग यूनिटें हैं जो देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों बाजारों की खातिर विभिन्न प्रकार के गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाता है.

आईसीएआई ने एमआरपीएल को सी.ए. के पर्यवेक्षण में सी.ए. छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुमोदन दिया है. इस संबंध में, हम सूचित करना चाहते हैं कि एमआरपीएल, अपने मंगलूर कार्पोरेट कार्यालय में 4 योग्य छात्रों को नीचे उल्लिखित नियमों और शर्तों पर औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहता है:-

1. अभ्यर्थी ने आईसीएआई से आईपीसीसी (इंटर अर्हता प्राप्त) पूरा किया हो जिसे आईसीएआई नियमों के अनुसार न्यूनतम 9 महीनों का औद्योगिक प्रशिक्षण पाना होगा.
2. प्रशिक्षण अधिकतम 12 महीनों का है.
3. स्टाइपेंड है, रु.10,000 प्रति माह (समेकित). चुने गए अभ्यर्थियों को परिवहन और रहने की व्यवस्था खुद करनी होगी.
4. औद्योगिक प्रशिक्षण, इस संबंध में आईसीएआई के अनुबंधों के अनुसार होगा. इसके अलावा, चुने गए अभ्यर्थियों के लिए कंपनी की वर्तमान नीतियां लागू होंगी.
5. समग्र (वित्त) एमआरपीएल को संबोधित आवेदन पत्र, आईसीएआई, मंगलूर/उडुपी के जरिए, अंक पत्र और अन्य परिचय पत्रों की प्रतिलिपियों के साथ 31 मार्च 2020 तक भेजने होंगे. अनुलग्नकों के साथ आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि catraineeindus@mrpl.co.in को भी भेजी जाए.
6. इस संबंध में किए जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा.